



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2003 (कार्तिक 24, 1925)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 15—NOV. 21, 2003 (KARTIKA 24, 1925)

हम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) पृष्ठ
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा
जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा
नकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. 1097

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत
सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी
की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों,
छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .. 923

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए
नकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 5

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई
सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों
आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .. 1515

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और
विनियम .. *

भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और
विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .. *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर
परामितियों के बिल तथा रिपोर्ट .. *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार
के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधि-
करणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा
जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य
स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .. *

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के
मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधि-
करणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा
जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .. *

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार पृष्ठ
के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी
शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित
क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी
किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक
आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल
हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो
भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित
होते हैं) .. *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये
गये सांविधिक नियम और आदेश .. *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल
विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अवीनस्थ
कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. 1543

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी
की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
और नोटिस .. 4693

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार
के अधीन अवकाश द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें
सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,
आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .. 9671

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-
सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और
नोटिस .. 371

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और
मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अभिलेख .. *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1-321GM/2003

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1097	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	923	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	1543
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1515	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	4693
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9671
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	371
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)			

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 2003

सं० 109-प्रेज/2003—राष्ट्रपति सचिवालय की भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में शनिवार दिनांक 28 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित दिनांक 20 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 142-प्रेज/2000 के तहत संस्थापित पुलिस (आंतरिक सुरक्षा सेवा) पदक में “पांचवा” शब्द से आरम्भ होने वाले विद्यमान पैरा को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :—

“पांचवा—पदक प्रदान किए जाने वाले पुलिस कामियों के नामों का रजिस्टर गृह मंत्रालय में ऐसे व्यक्ति(यों) द्वारा रखा जाएगा जिसे राष्ट्रपति निदेश देंगे।”

वरूण मित्रा,
निदेशक

सं० 11022/23/03-पी० एम० ए०—पुलिस (आंतरिक सुरक्षा सेवा) पदक सम्बन्धी संविधियों की “चौथी” और “पातवी” संविधि के अनुसरण में पदक प्रदान करने के संबंध में लागू निम्नलिखित नियम 4 को जोड़ा जाता है :

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस विभाग के प्रमुखों अर्थात् पुलिस महानिदेशकों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों अर्थात् महानिदेशकों को संविधियों, नियमों के उपबंधों तथा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप अपने पात्र पुलिस कामियों पुलिस (आंतरिक सुरक्षा सेवा) पदक प्रदान करने लिए शक्तियां प्रत्या-योजित की जाती हैं।

वरूण मित्रा
निदेशक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 29 अक्तूबर 2003

संकल्प

सं० एक-11018/1/92-हिंदी—भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति का गठन, कार्य आदि निम्न प्रकार से होंगे :—

गठन :

अध्यक्ष

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

संसद सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

सदस्य

2. श्री हरपाल सिंह साथी, संसद सदस्य (लोकसभा), 4, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

3. श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (लोकसभा), 226, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

4. श्रीमति सबिता शारदा, संसद सदस्य (राज्यसभा), 19, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

5. श्री महेंद्र प्रसाद, संसद सदस्य (राज्यसभा), 4, सफदरजंग लेन नई दिल्ली-110001

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

6. डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डे, संसद सदस्य (लोकसभा), 1 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

7. श्रीमती सरला महेश्वरी, संसद सदस्य (राज्यसभा), 18, विंडसर पथ, नई दिल्ली-110001

अन्य गैर-सरकारी सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एकस बाई 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

8. श्री रवि प्रकाश सिन्हा, पूर्व सचिव, भारत सरकार, 4470, बी-5/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम), 10788-89, झंडे बाला रोड, नबी करोम, नई दिल्ली, 110055 द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

9. श्री के०जी० बालकृष्ण पिल्लै, अध्यक्ष, केरल-हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनन्तपुरम, केरल 695014

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

10. श्री सुधाकरण पाण्डेय, प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
11. डॉ० रमेश चन्द्र मेहरा अंगीकार दिल्ली दरवाजा हरसूल रोड, हिमायत बाग वस स्टॉप के सामने, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र) पिन-431001
12. श्री विभूति मिश्र, प्रधानमंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 12, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद-211003
13. डॉ० एच० बालसुब्रह्मण्यम 776, पॉकेट 5, मयूर विहार फेस-1 दिल्ली-110091

राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

14. डॉ० हरीश कुमार सी-1 ए/119-ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
15. डॉ० चंद्रकांत मेहता, 16, हेवेन पार्क, रामदेव नगर के पास, सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद-380015
16. प्रो० विश्वम्भर अरूण, जानकी निवास, 3/24, मानपाडा, आगरा-282003, उत्तर प्रदेश

सरकारी सदस्य

17. राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार
18. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
20. संयुक्त सचिव (ए०एन०पी०एस०) खा०प्र०उ० मंत्रालय
21. निदेशक (के०के०वी०) खा०प्र०उ० मंत्रालय
22. निदेशक (जी०वेंकटरमणी), खा०प्र०उ० मंत्रालय
23. निदेशक(ज०प्र०शुक्ल), खा०प्र०उ०मंत्रालय
24. उपसचिव (एन०एस०) खा०प्र०उ० मंत्रालय
25. उप सचिव (आर०सी०एस०) खा०प्र०उ० मंत्रालय
26. निदेशक, धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावर

[सदस्य-सचिव

27. संयुक्त सचिव (प्रशासन), खा०प्र०उ० मंत्रालय

2. समिति के कार्य :-

इस समिति का कार्य राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रणामी प्रयोग से संबंधित विषयों पर आवश्यक सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्यतः इसके गठन की तारीख से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तीन वर्ष तक होगा बशर्ते :-

(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। किंतु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० II/20034/4/86-रा०भा० (क० 2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जय प्रकाश शुक्ल, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2003

संकल्प

सं. एफ० 19014/1/95-डी०एम०एस०/सी०एफ०ए०—
दिनांक 12-3-1991 के संकल्प संख्या एफ० 19020/1/89-
डी०एम०एस० एण्ड पी० एफ० ए० द्वारा गठित की गई
भारतीय भेषज संहिता समिति का कार्यकाल, जिसे 11-9-2003
तक बढ़ाया गया था, को आगे 6 महीने की अवधि के लिए
अर्थात् 11-3-2004 तक बढ़ाया जाता है।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th October 2003

No. 109-Pres/2003.—The existing para beginning with the word "Fifthly" in the Police (Antrik Suraksha Seva) Padak instituted vide President's Secretariat Notification No. 142-Pres/2000 dated the 20th September, 2000 and published in Part-I Section 1 of the Gazette of India dated the Saturday the 28th October, 2000 may be substituted as under :—

"Fifthly—A register of names of Police Personnel who are awarded this Medal shall be kept in the Ministry of Home Affairs by such person(s) as the President may direct".

BARUN MITRA
Director

No. 11022/23/03-PMA.—In accordance with Statutes "Fourthly" and "Seventhly" of the Statutes relating to Police (Antrik Suraksha Seva) Padak, the following Rule 4 governing award of Medals is added :—

4. The Heads of Police Departments in the States/ Union Territories that is Director General of Police and Heads that is Director General of the Central Police Organisations are delegated the powers to award Police (Antrik Suraksha Seva) Padaks to their eligible police personnel as per the provisions of Statutes, Rules and other instructions issued from time to time.

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 29th October 2003

RESOLUTION

No. H-11018/1/92-Hindi.—The Central Government has decided to constitute Hindi Advisory Committee in the Ministry of Food Processing Industries. The Committee's composition, functions etc. will be as under :—

1. Composition

Chairman

1. Minister of State for Food Processing Industries (Independent Charge).

Members of Parliament

Members of Parliament nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

Members

2. Shri Harpal Singh Sathi, Member of Parliament (Lok Sabha) 4, Feroz Shah Road, New Delhi-110001.

3. Shri Ravi Prakash Verma, Member of Parliament (Lok Sabha) 226, North Avenue, New Delhi-110001.

4. Smt. Savita Sharada, Member of Parliament (Rajya Sabha) 19, South Avenue, New Delhi-110001.

समिति की अन्य निबन्धन और शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय, नई दिल्ली और भारतीय भेषज संहिता समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

नीता केजरीवाल, अवर सचिव

5. Shri Mahendra Prasad, Member of Parliament (Rajya Sabha) 4, Safdarjung Lane, New Delhi-110001.

Members of Parliament nominated by Parliamentary Committee on Official Language.

Members

6. Dr. Laxmi Narayan Pandey, Member of Parliament (Lok Sabha) 1, Feroz Shah Road, New Delhi-110001.

7. Smt. Sarla Mahechhari, Member of Parliament (Rajya Sabha) 18, Windsor Place, New Delhi-110001.

Other Non-Official Members

Member nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi

Member

8. Shri Ravi Prakash Sinha, Ex-Secretary, Govt. of India 4470, B-5/6, Vasant Kdnj, New Delhi-110070.

Member nominated by Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, Community Centre (Delhi Municipal Corporation), 10788-89, Shandewalan Road, Nabi Kareem, New Delhi-110055

Member

9. Shri K. G. Balakrishna Pillai, Chairman, Kerala Hindi Prachar Sabha, Thiruvananthapuram, Kerala-695014.

Members nominated by Ministry of Food Processing Industries

Members

10. Shri Sudhakar Pandey, Pradhan Mantri, Nagari Pracharani Sabha, Varapasi, Uttar Pradesh

11. Dr. Ramesh Chander Mehra, 'Angeekar', Dilli Darwaja, Harsool Road, Opp. Himayat Bag Bus Stop, Aurangabad (Maharashtra) PIN : 431001

12. Shri Vibhuti Mishra, Pradhan Mantri, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag 12, Sammelan Marg, Allahabad-211003

13. Dr. H. Balasubramaniam, 776, Pocket 5, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-110091

Members nominated by Department of Official Language

Members

14. Dr. Harish Kumar, C-1, A/119-A, Janakpuri, New Delhi-110058

15. Dr. Chandrakanth Mehta, 16, Heaven Park, Near Ramdev Nagar, Satellite Road, Ahmedabad-380015

16. Prof. Vishambhar Arun, Janaki Niwas, 3/24, Manpada, Agra-282003, Uttar Pradesh

Official Members

Members

17. Secretary, Department of Official Language and Hindi Advisor to Government of India

18. Secretary, Ministry of Food Processing Industries
19. Joint Secretary, Department of Official Language
20. Joint Secretary (ANPS), Ministry of Food Processing Industries
21. Director (KKV), Ministry of Food Processing Industries
22. Director (G. Venketaramani), Ministry of Food Processing Industries
23. Director (J. P. Shukla), Ministry of Food Processing Industries
24. Deputy Secretary (MS), Ministry of Food Processing Industries
25. Deputy Secretary (RCS), Ministry of Food Processing Industries
26. Director, Paddy Processing Research Centre, Thanjavur.

Member Secretary

27. Joint Secretary (Admn.), Ministry of Food Processing Industries.

2. Functions of the Committee

The functions of the Committee will be to advise on matters relating to progressive use of Hindi in the Ministry of Food Processing Industries and its subordinate offices in accordance with policies laid down by the Department of Official Language.

3. Tenure

The term of the Committee will be three years from the date of its composition provided that :—

- (a) A Member of Parliament who is a member of this Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
- (b) Ex-officio members of the Committee shall continue as member as long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee.
- (c) If a vacancy arises in the Committee due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

4. General

The headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

5. Travelling and other allowances.

The non-official members of the Committee shall be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in O.M. No. II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22 January, 1987 of Department of Official Languages and at the prescribed rates and as per rules amended by Government of India from time to time.

ORDER

It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Committee, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Office of the Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission of India, Union Public Service Commission, Principal Pay and Account Officer, Ministry of Food Processing Industries, Subordinate office/Autonomous body of Ministry of Food Processing Industries and all Ministries/Departments of the Government of India.

It is also ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. P. SHUKLA
Director

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st September 2003

RESOLUTION

No. X.19014/1/95-D/DMS&PFA.—The term of the Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide Resolution No. X.19020/1/89-DMS&PFA dated 12-3-1991, which was extended upto 11-9-2003, is further extended for a period of six months, i.e. upto 11-3-2004.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee (List enclosed).

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NITA KEJREWAL
Under Secy.